



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

19 चैत्र 1947 (श10)
(सं0 पटना 266) पटना, बुधवार, 9 अप्रील 2025

श्रम संसाधन विभाग

अधिसूचना
28 मार्च 2025

एस0ओ0 77 दिनांक 9 अप्रील, 2025—न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा-5 के साथ वर्णित उक्त अधिनियम की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल अनुबद्ध अनुसूची-1(ब)के स्तंभ-2 में अंकित अनुसूचित नियोजनों में नियोजित विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए निर्धारित/पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी के दरों पर परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता लागू करने की घोषणा करते हैं। अनुसूची-1(ब) के स्तम्भ-02 में उल्लिखित नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों पर परियोज्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उक्त अनुसूची-1(अ) के स्तंभ-01 के प्रदर्शित मासों के हेतु उक्त अधिनियम की धारा-2 के खंड (डी) के प्रयोजन के निमित्त अनुसूची 1(अ) के स्तम्भ-04 में यथा प्रदर्शित रूप में होंगे।

अनुसूची-1 (अ)

माह एवं वर्ष	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष (2016-100)	आधार वर्ष परिवर्तन हेतु लिंक फैक्टर	परिवर्तित मूल्य सूचकांक आधार वर्ष (1960-100)
जुलाई, 24	142.7	4.63 X4.93 X2.88	9380.89
अगस्त, 24	142.6	4.63 X4.93 X2.88	9374.32
सितम्बर, 24	143.3	4.63 X4.93 X2.88	9420.34
अक्टूबर, 24	144.5	4.63 X4.93 X2.88	9499.22
नवम्बर, 24	144.5	4.63 X4.93 X2.88	9499.22
दिसम्बर, 24	143.7	4.63 X4.93 X2.88	9446.63
योग :- 56620.62			

वर्ष 2024 के द्वितीय अर्द्धांश जुलाई से दिसम्बर, 2024 का औसत- $56620.62 \div 6 = 9436.77$

अनुसूची- I (ब)

क्र० सं०	अनुसूचित नियोजन का नाम	दिनांक-01.10.2024 से लागू दरों से संबंधित अधिसूचना एवं गजट संख्या का संदर्भ	कुल
1	2	3	4
1	1. पत्थर तोड़ने अथवा पत्थर पीसने का कार्य 2. बीड़ी निर्माण 3. ईंट निर्माण 4. हेयर कटिंग शैलून 5. लादने एवं उतारने के कार्य 6. वन का संचालन तथा लकड़ी बनाने के कार्य 7. असली रेशम, कृत्रिम रेशम तथा स्टैपुल धागों से निर्माण सहित सिल्क उद्योग 8. मिट्टी काटने के कार्य 9. चाय बगान 10. लाह निर्माण 11. पावरलूम इंडस्ट्रीज (बिजली करघा) 12. केन्दु पत्ता तोड़ने एवं तैयार करने ।	अधिसूचना संख्या-11,12 दिनांक-30.09.2024 गजट सं०-1099 दिनांक-21.11.2024	12 नियोजन

क्र० सं०	कामागारों की कोटि	दिनांक-01-09-2022+ 01.10.2022+01.04.2023+ 01.10.2023+01.04.2024+ 01.10.2024 से निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दरें (रुपये में)	परिवर्तनशील महँगाई भत्ता की राशि जो कि दिनांक- 01.04.2025 से प्रभावी होगी	01.04.2025 से लागू कुल मजदूरी की दरें। (स्तंभ 3+4)
1	2	3	4	5
1. पत्थर तोड़ने अथवा पत्थर पीसने के कार्य : - (सामान्य कार्य)				
1.	अकुशल -	366.00+7.00+15.00+7.00+ 15.00+2.00=412.00	12.00	424.00 प्रतिदिन
2.	अर्द्धकुशल-	380.00+8.00+15.00+8.00+ 15.00+2.00=428.00	12.00	440.00 प्रतिदिन
3.	कुशल	463.00+9.00+19.00+9.00+ 19.00+2.00=521.00	15.00	536.00 प्रतिदिन
4.	अतिकुशल	566.00+11.00+23.00+11.00+ 23.00+2.00=636.00	18.00	654.00 प्रतिदिन
5.	लिपिकीय/ पर्यवेक्षीय	10478.00+210.00+419.00+ 210.00+419.00+44.00 =11780.00	332.00	12112.00 प्रतिमाह
I. खदान से निकालना एवं बैल गाड़ी से ढोना-(प्रति 100 घनफीट)				
(क)	1/4 मील के अन्दर और वहां तक	794.00+16.00+32.00+16.00 +32.00+3.00=893.00	25.00	918.00 प्रतिदिन
(ख)	प्रत्येक 1/4 मील के उपर ढोने के लिए।	182.00+4.00+7.00+4.00+ 7.00+1.00=205.00	6.00	211.00 प्रतिदिन
II.	माइनिंग ट्रौली तोड़ने और परिवहन ट्रौली द्वारा। (प्रति 25 घनफीट कटाव)	197.00+4.00+8.00+4.00+ 8.00+1.00=222.00	6.00	228.00 प्रतिदिन
III.	वोल्डर्स बेली तोड़ने वाला (प्रति 100 घनफीट)	197.00+4.00+8.00+4.00+8.00+1.00 =222.00	6.00	228.00 प्रतिदिन
IV. बोल्डर्स ब्लास्ट तोड़ने वाला (प्रति 100 घनफीट)				
(क)	2" x 3"	413.00+8.00+17.00+8.00+ 17.00+2.00=465.00	13.00	478.00

(ख)	2" x 2½"	518.00+10.00+21.00+10.00 +21.00+2.00=582.00	13.00	595.00
(ग)	1½" x 2"	616.00+12.00+25.00+12.00 +25.00+3.00=693.00	20.00	713.00
(घ)	1"	1017.00+20.00+41.00+20.00+ 41.00+4.00=1143.00	32.00	1175.00
V.	निज तौलाई से ब्लास्ट तोड़ने वाला (प्रति 5 फीट का बक्सा)	67.00+1.00+3.00+1.00+3.00 +0.28=75.28	2.00	77.28
VI.	चिप्स तोड़ने वाला (प्रति घनफीट)			
(क)	हाथ द्वारा बनाई गई 3/4" डाउन छरी।	33.00+0.66+1.32+1.00+1.32+ 0.11=37.41	1.00	38.41
(ख)	हाथ द्वारा बनाई गई 1" डाउन छरी।	33.00+0.66+1.32+1.00+1.32+ 0.11=37.41	1.00	38.41
VII	मिट्टी काटने वाला—			
(क)	मुलायम मिट्टी के लिए प्रति 90 घनफीट	366.00+7.00+15.00+7.00+ 15.00+2.00=412.00	12.00	424 प्रतिदिन
(ख)	कड़ी मिट्टी के लिए प्रति 75 घनफीट	366.00+7.00+15.00+7.00+ 15.00+2.00=412.00	12.00	424 प्रतिदिन
(ग)	अति कड़ी मिट्टी के लिए प्रति 60 घनफीट	366.00+7.00+15.00+7.00+ 15.00+2.00=412.00	12.00	424 प्रतिदिन
नोट:—महिला कामगारों के लिए 15 प्रतिशत कम मिट्टी काटने का निर्णय, परन्तु मजदूरी समान रूप से पायेंगे।				
VIII	वोरर्स या ड्रीलर्स प्रति घनफीट	49.00+0.98+2.00+1.00+2.00 +0.20=55.18	2.00	57.18 प्रतिदिन
IX.	माईन्स (एक चौथाई मिल के अन्दर माथे से वोरर्स ढोना) प्रति 25 घनफीट	239.00+5.00+10.00+5.00+ 10.00+1.00=270.00	8.00	278.00 प्रतिदिन
X.	बैगन लाने वाला (500 घनफीट के ब्रोडज का पूरा बैगन) बैगन की ढुलाई।	658.00+13.00+26.00+13.00 +26.00+3.00=739.00	21.00	750.00 प्रतिदिन
XI.	स्टोन सेट (पत्थर की ईंट) प्रति 100 पीस के लिए			
(क)	ब्रेकिंग साईज 9" x 6" x 4" प्रति 100 पीसेज	814.00+16.00+33.00+16.00 +33.00+3.00=915.00	26.00	941.00
(ख)	स्टोन सेट (पत्थर की ईंट की पालिश करना)। प्रति 100 पीसेज	449.00+9.00+18.00+9.00 + 18.00+1.00=504.00	14.00	518.00
(ग)	स्टोन सेट (पत्थर की ईंट की 3 से 4 मील तक की दूरी से कटिंग एवं ढुलाई)। 3 प्रति 100 पीसेज	366.00+7.00+15.00+7.00+ 15.00+2.00=412.00	12.00	424.00

2.	बीड़ी निर्माण—(सामान्य कार्य)			
1	अकुशल —	$366.00+7.00+15.00+7.00+15.00+2.00=412.00$	12.00	424.00 प्रतिदिन
2	अर्द्धकुशल—	$380.00+8.00+15.00+8.00+15.00+2.00=428.00$	12.00	440.00 प्रतिदिन
3	कुशल	$463.00+9.00+19.00+9.00+19.00+2.00=521.00$	15.00	536.00 प्रतिदिन
4.	अतिकुशल	$566.00+11.00+23.00+11.00+23.00+2.00=636.00$	18.00	654.00 प्रतिदिन
5.	लिपिकीय / पर्यवेक्षीय	$10478.00+210.00+419.00+210.00+419.00+44.00=11780.00$	332.00	12112.00 प्रतिमाह

खण्ड कार्य —

I. लेबुल लगाना

(क)	लेबुल लगाना (एकल) प्रति लाख बीड़ी—	$449.00+9.00+18.00+9.00+2.00+18.00+2.00=507.00$	16.00	523.00
(ख)	लेबुल लगाना (दोहरा) प्रति लाख बीड़ी—	$466.00+9.00+19.00+9.00+19.00+2.00=524.00$	15.00	539.00

II. सेकाई कार्य—

(क)	तंदुर के सिवाय किसी अन्य तरीके से सेकाई कार्य में नियोजित कर्मचारी प्रति लाख बीड़ी—	$216.00+4.00+9.00+4.00+9.00+1.00=243.00$	7.00	250.00
(ख)	तंदुर द्वारा सेकाई—प्रति लाख बीड़ी—	$220.00+4.00+9.00+4.00+9.00+1.00=247.00$	7.00	254.00
(ग)	गांठ बंधाई (टोकरी गांठ बंधाई) प्रति लाख बीड़ी—	$225.00+5.00+9.00+5.00+9.00+1.00=254.00$	7.00	261.00

3. ईट निर्माण नियोजन —

I. सामान्य कार्य—

1	अकुशल —	$366.00+7.00+15.00+7.00+15.00+2.00=412.00$	12.00	424.00 प्रतिदिन
2	अर्द्धकुशल—	$380.00+8.00+15.00+8.00+15.00+2.00=428.00$	12.00	440.00 प्रतिदिन
3	कुशल	$463.00+9.00+19.00+9.00+19.00+2.00=521.00$	15.00	536.00 प्रतिदिन
4.	अतिकुशल	$566.00+11.00+23.00+11.00+23.00+2.00=636.00$	18.00	654.00 प्रतिदिन
5.	लिपिकीय / पर्यवेक्षीय	$10478.00+210.00+419.00+210.00+419.00+44.00=11780.00$	332.00	12112.00 प्रतिमाह

II. खण्ड कार्य —

(i)	ब्रिक मोल्डर (मिट्टी काटना, मिट्टी सानना, मिट्टी में पानी पटाना और परिया पर मिट्टी लाना सहित) प्रति हजार ईट—	$535.00+11.00+21.00+11.00+21.00+2.00=601.00$	17.00	618.00 प्रतिदिन
-----	--	--	-------	-----------------

(ii)	भट्ठा में ईट चढ़ाना/ उतारना (प्रति हजार ईट-) एवं अकुशल मजदूर (प्रतिदिन)	$366.00+7.00+15.00+7.00+15.00+2.00$ $=412.00$	12.00	424.00 प्रतिदिन
(iii)	मिस्त्री	$10111.00+202.00+404.00+202.00+404.00$ $+43.00= 11366.00$	360.00	11726.00 प्रतिमाह
III.	चिमनी में			
(i)	ब्रिक मोल्डर (मिट्टी काटना, मिट्टी सानना, मिट्टी में पानी पटाना औरपरिया या पगमिल पर मिट्टी लाना सहित)प्रति हजार ईट-	$472.00+9.00+19.00+9.00+19.00+2.00$ $=530.00$	15.00	545.00 प्रतिदिन
(ii)	ईट चढ़ाना/ उतारना (प्रति हजार ईट-) एवं अकुशल मजदूर(प्रतिदिन)	$366.00+7.00+15.00+7.00+15.00+2.00=412.00$	12.00	424.00 प्रतिदिन
(iii)	फायरमैन-	$11238.00+225.00+450.00+225.00+$ $450.00+47.00= 12635.00$	356.00	12991.00 प्रतिमाह
(iv)	कोलमैन/चौकीदार/फायर खलासी एवं रवलिसमैन	$9478.00+190.00+379.00+190.00+379.00$ $+40.00= 10656.00$	300.00	10956.00 प्रतिमाह
(v)	मेट/ओभर सुपरवाइजर एवं मिस्त्री-	$10857.00+217.00+434.00+217.00+$ $434.00+46.00= 12205.00$	344.00	12549.00 प्रतिमाह
(vi)	मुंशी-	$11462.00+229.00+458.00+229.00+458.00$ $+48.00=12884.00$	363.00	13247.00 प्रतिमाह
4.	हेयर कटिंग सैलून (सामान्य कार्य) -			
1	अकुशल -	$366.00+7.00+15.00+7.00+15.00+2.00$ $=412.00$	12.00	424.00 प्रतिदिन
2	अर्द्धकुशल-	$380.00+8.00+15.00+8.00+15.00+2.00$ $=428.00$	12.00	440.00 प्रतिदिन
3	कुशल	$463.00+9.00+19.00+9.00+19.00+2.00$ $=521.00$	15.00	536.00 प्रतिदिन
4.	अतिकुशल	$566.00+11.00+23.00+11.00+23.00+2.00$ $=636.00$	18.00	654.00 प्रतिदिन
5.	लिपिकीय/ पर्यवेक्षीय	$10478.00+210.00+419.00+210.00+419.00$ $+44.00= 11780.00$	332.00	12112.00 प्रतिमाह
	खंड कार्य -			
(i)	प्रति बाल कटाई-	$51.00+1.00+2.00+1.00+2.00+0.21=57.21$	2.00	59.21
(ii)	प्रति दाढ़ी बनाई-	$17.00+0.34+0.68+0.34+0.68+0.07=19.11$	1.00	20.11
(iii)	प्रति बाल काटना एवं दाढ़ी बनाई-	$63.00+1.00+3.00+1.00+3.00+0.26=71.26$	2.00	73.26
(iv)	प्रति सर मुंडन-	$38.00+0.76+1.52+1.00+1.20+0.15= 42.63$	1.00	43.63
(v)	बच्चे-बच्चियों प्रति बाल कटाई-	$30.00+0.60+1.20+1.00+1.20+0.12= 34.12$	1.00	35.12
(vi)	प्रति सर मालिश -	$13.00+0.26+0.52+0.26+0.52+0.05= 14.71$	0.4	15.11

(vii)	प्रति शैम्पू करना—	$30.00+0.60+1.20+1.00+0.12+0.12=33.04$	1.00	34.04
(viii)	प्रति बाल रंगाई—	$148.00+3.00+6.00+3.00+6.00+0.62+=166.62$	5.00	171.62
5.	लादने या उतारने के कार्यों के नियोजन—			
	सामान्य कार्य—			
1	अकुशल —	$366.00+7.00+15.00+7.00+15.00+2.00=412.00$	12.00	424.00 प्रतिदिन
2	अर्द्धकुशल—	$380.00+8.00+15.00+8.00+15.00+2.00=428.00$	12.00	440.00 प्रतिदिन
3	कुशल	$463.00+9.00+19.00+9.00+19.00+2.00=521.00$	15.00	536.00 प्रतिदिन
4.	अतिकुशल	$566.00+11.00+23.00+11.00+23.00+2.00=636.00$	18.00	654.00 प्रतिदिन
5.	लिपिकीय / पर्यवेक्षीय	$10478.00+210.00+419.00+210.00+419.00+44.00=11780.00$	332.00	12112.00 प्रतिमाह
खण्ड कार्य:—				
बोरा, गुड़, चक्की, खाद, कपड़े की गांठ, जूट, रुई, आदि लादने या उतारने टीन या किरासन तेल का ड्राम, सरसों तेल, नारियल तेल और अन्य तेल, डालडा छोवा, पेन्ट्स, तार आदि या कोई अन्य भार (लोड) इस अनुसूचि में उल्लिखित नहीं है। गोदाम या दूकान या सामान रखने का स्थान (स्टोरेजलेश से) से रेलवे वैगन, ट्रक, बैलगाड़ी आदि या एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने और ले आने प्रत्येक 200 मीटर या उसके खंड भार (लोड) ले जाने के लिए प्रति भार (लोड) का— प्रतिदिन				
I	20 किलो से कम—	$6.00+0.12+0.24+0.12+0.24+0.02=6.74$	0.2	6.94
II	20 किलो से 40 किलो तक	$8.00+0.16+0.32+0.16+0.32+0.03=8.99$	0.25	9.24
III	41 किलो से 65 किलो तक	$10.00+0.20+0.40+0.20+0.40+0.04=11.24$	0.31	11.55
IV	66 किलो से 85 किलो तक—	$13.00+0.26+0.52+0.26+0.52+0.05=14.61$	0.41	15.02
V	86 किलो से 100 किलो तक	$18.00+0.36+0.72+0.36+0.72+0.07=20.23$	1.00	21.23
VI	101 किलो से और उससे अधिक(प्रति दो किलो भार के लिए) (101 किलो ग्राम के उपर)	$(19.26+3.09)+(0.38+0.06)+(0.77+0.12)+(0.38+0.06)+(0.77+0.12)+(0.08+0.01)= (21.64+3.46)$	(0.61+0.10)	(22.25+3.56)
(2)	बोरा को भरना या फिर से भरना या तौलना या सिलाई करना या टीन ड्राम को वेल्डिंग करना या बोरा, टीन, ड्राम और अन्य किसी भार (लोड) को एक ही जगह ठीक से रखना—			
(i)	बोरा, टीन, ड्राम को भरना या फिर से भरना या ठीक करना और अन्य कोई भार—प्रति भार (लोड) का —			
(क)	40 किलो तक—	$5.00+0.10+0.20+0.10+0.20+0.20=5.80$	0.16	5.96
(ख)	41 किलो से 65 किलो तक—	$8.00+0.16+0.32+0.16+0.32+0.03=8.99$	0.25	9.24
(ग)	66 किलो से 100 किलो तक—	$10.00+0.20+0.40+0.20+0.40+0.04=11.24$	0.31	11.55
(घ)	101 किलो और उससे अधिक— प्रति दस किलो ग्राम भार के लिए (101 किलोग्राम से उपर)—	$(19.14+4.31)+(0.38+0.08)+(0.77+0.17)+(0.38+0.08)+(0.77+0.17)+(0.08+0.01)= (21.52+5.49)$	(0.60+0.13)	(22.12+5.62)

(ii)	एक बोरा की सिलाई करना या एक टीन या एक ड्राम को बेल्डिंग करना या 10 किलो से अधिक भार के स्केल पर तौलना)–	$5.00+0.10+0.20+0.10+0.20+0.20=5.80$	0.16	5.96
(3)	बांस, लकड़ी का पोल, लकड़ी का कुन्दा, जलावन की लकड़ी और ईख लादना या उतारना–			
(i)	बांस और लकड़ी का पोल लादना–			
(क)	प्रति रेलवे वैगन–	$737.00+15.00+29.00+15.00+29.00+3.00=828.00$	23.00	851.00
(ख)	प्रति ट्रक–	$350.00+7.00+14.00+7.00+14.00+1.00=393.00$	11.00	404.00
(ग)	प्रति टायर वाली गाड़ी–	$101.00+2.00+4.00+2.00++4.00+0.42=113.42$	3.00	116.42
(घ)	प्रति बैलगाड़ी	$71.00+1.00+3.00+1.00+3.00+0.29=79.29$	2.00	81.29
(ii)	लकड़ी का कुन्दा एवं जलावन को लादना–			
(क)	प्रति रेलवे वैगन–	$737.00+15.00+29.00+15.00+29.00+3.00=828.00$	23.00	851.00
(ख)	प्रति ट्रक–	$350.00+7.00+14.00+7.00+14.00+1.00=393.00$	11.00	404.00
(ग)	प्रति टायर वाली गाड़ी–	$101.00+2.00+4.00+2.00++4.00+0.42=113.42$	3.00	116.42
(घ)	प्रति बैलगाड़ी	$71.00+1.00+3.00+1.00+3.00+0.29=79.29$	2.00	81.29
(iii)	बांस,लकड़ी का पोल, लकड़ी कुन्दा एवं जलावन की लकड़ी उतारना–			
(क)	प्रति रेलवे वैगन–	$239.00+5.00+10.00+5.00+10.00+1.00=270.00$	8.00	278.00
(ख)	प्रति ट्रक–	$101.00+2.00+4.00+2.00++4.00+0.42=113.42$	3.00	116.42
(ग)	प्रति टायर वाली गाड़ी–	$35.00+0.70+1.40+0.70+1.40+0.14=39.34$	1.00	40.34
(घ)	प्रति बैलगाड़ी	$21.00+0.42+0.84+0.42+0.84+0.08=23.60$	0.07	23.67
(iv)	ईख लादना एवं उतारना प्रति विघन्टल–	$13.00+0.26+0.52+0.26+0.52+0.05=14.61$	0.41	15.02
(4)	सीमेन्ट या मिट्टी या शीशे से निर्मित ईट,फायरब्रिक्सटाईल्स, फेगाईल्सवेयर्स, स्टोन पाईल्डर्स वाली और कोयला को लादना और उतारना–			
(i)	सीमेन्ट या मिट्टी या शीशे से निर्मित ईट, फायरब्रिक्स टाईल्स, फेगाईल्सवेयर्स को लादना एवं उतारना :-			
(क)	प्रति रेलवे वैगन–	$2015.00+40.00+81.00+40.00+81.00+8.46=2265.46$	64.00	2329.46
(ख)	प्रति ट्रक–	$875.00+18.00+35.00+18.00+35.00+3.67=985.00$	28.00	1013.00
(ग)	प्रति टायर वाली गाड़ी–	$253.00+5.00+10.00+5.00+10.00+1.00=284.00$	8.00	292.00
(घ)	प्रति बैलगाड़ी	$177.00+4.00+7.00+4.00+7.00+1.00=200.00$	6.00	206.00
(ii)	ईट लादना –			
(क)	प्रति रेलवे वैगन–	$1570.00+31.00+63.00+31.00+63.00+7.00=1765.00$	50.00	1815.00
(ख)	प्रति ट्रक–	$737.00+15.00+29.00+15.00+29.00+3.00=828.00$	23.00	851.00

(ग)	प्रति टायर वाली गाड़ी—	$213.00+4.00+9.00+4.00+9.00+0.89$ =239.89	7.00	246.89
(घ)	प्रति बैलगाड़ी	$155.00+3.00+6.00+3.00+6.00+0.65$ =173.65	5.00	178.65
(iii)	ईंट उतारना —			
(क)	प्रति रेलवे वैगन—	$1033.00+21.00+41.00+21.00$ +41.00+4.00=1161.00	33.00	1194.00
(ख)	प्रति ट्रक—	$499.00+10.00+20.00+10.00+20.00+2.00$ =561.00	16.00	577.00
(ग)	प्रति टायर वाली गाड़ी—	$155.00+3.00+6.00+3.00+6.00+0.65$ =173.65	5.00	178.65
(घ)	प्रति बैलगाड़ी	$101.00+2.00+4.00+2.00+4.00+0.42$ =113.42	3.00	116.42
(iv)	स्टोन चीप्स एवं चाली को लादना एवं उतारना—प्रति 100 सी०एफ०टी०			
(क)	लादना—	$130.00+3.00+5.00+3.00+5.00+0.54$ =146.54	4.00	150.54
(ख)	उतारना—	$89.00+2.00+4.00+2.00+4.00+0.37$ =101.37	3.00	104.37
(v)	स्टोन बोल्डर्स एवं ब्लास्ट को लादना एवं उतारना— प्रति 100 सी०एफ०टी०			
(क)	लादना—	$123.00+2.00+5.00+2.00+5.00+0.51$ =137.51	4.00	141.51
(ख)	उतारना—	$89.00+2.00+4.00+2.00+4.00+0.37$ =101.37	3.00	104.37
(5)	आयरनरॉड्स, जी०सी०ट्स, आयरन पाईप्स, हीयूम पाईप मशीनरीज इक्वीपमेंट्स एवं अन्य हार्ड वेयर्स को लादना एवं उतारना—			
(i)	लादना—			
(क)	प्रति रेलवे वैगन—	$1764.00+35.00+71.00+35.00+71.00+7.00$ =1983.00	56.00	2039.00
(ख)	प्रति टायर वाली गाड़ी ट्रक—	$814.00+16.00+33.00+16.00+33.00+3.00$ =915.00	26.00	941.00
(ग)	प्रति टायर वाली गाड़ी—	$237.00+5.00+9.00+5.00+9.00+1.00$ =266.00	8.00	274.00
(घ)	प्रति बैलगाड़ी	$200.00+4.00+8.00+4.00+8.00+1.00$ =225.00	6.00	231.00
(ii)	उतारना—			
(क)	प्रति रेलवे वैगन—	$1190.00+24.00+48.00+24.00+48.00+5.00$ =1339.00	38.00	1377.00
(ख)	प्रति ट्रक—	$601.00+12.00+24.00+12.00+24.00+3.00$ =676.00	19.00	695.00
(ग)	प्रति टायर वाली गाड़ी—	$182.00+4.00+7.00+4.00+7.00+1.00$ =205.00	6.00	211.00
(घ)	प्रति बैलगाड़ी	$122.00+2.00+5.00+2.00+5.00+1.00$ =137.00	4.00	141.00
(6)	कोयला को लादना एवं उतारना—	$366.00+7.00+15.00+7.00+15.00+2.00$ =412.00	12.00	424.00 प्रतिदिन
(i)	लादना—			
(क)	प्रति रेलवे वैगन (22 टन की क्षमता वाला)—	$712.00+14.00+28.00+14.00+28.00+3.00$ =799.00	23.00	822.00
(ख)	प्रति ट्रक (200 सी० एफ० टी०—)	$443.00+9.00+18.00+9.00+18.00+2.00$ =499.00	14.00	513.00
(ग)	प्रति टायर वाली गाड़ी—	$122.00+2.00+5.00+2.00+5.00+1.00$ =137.00	4.00	141.00
(घ)	प्रति बैलगाड़ी	$101.00+2.00+4.00+2.00+4.00+0.42$ =113.42	3.00	116.42
(ii)	उतारना—			
(क)	प्रति रेलवे वैगन 22 टन की क्षमता वाला—	$483.00+10.00+19.00+10.00+19.00+2.00$ =543.00	15.00	558.00

(ख)	प्रति ट्रक (200 सी०एफ०टी०—)	$279.00+6.00+11.00+6.00+11.00+1.00=314.00$	9.00	323.00
(ग)	प्रति टायर वाली गाड़ी—	$66.00+1.00+3.00+1.00+3.00+0.29=74.29$	2.00	76.29
(घ)	प्रति बैलगाड़ी	$41.00+0.82+1.64+0.82+1.64+0.17=46.09$	1.00	47.09
(7)	चूना, बालू, क्ले (clay) एवं मिट्टी को लादना एवं उतारना—	$366.00+7.00+15.00+7.00+15.00+2.00=412.00$	12.00	424.00
(i)	लादना—			
(क)	प्रति रेलवे वैगन (22 टन की क्षमता वाला—)	$557.00+11.00+22.00+11.00+22.00+2.00=625.00$	18.00	643.00
(ख)	प्रति ट्रक (200 सी०एफ० टी०—)	$324.00+6.00+13.00+6.00+13.00+1.00=363.00$	10.00	373.00
(ग)	प्रति टायर वाली गाड़ी—	$159.00+3.00+6.00+3.00+6.00+1.00=178.00$	5.00	183.00
(घ)	प्रति बैलगाड़ी	$122.00+2.00+5.00+2.00+5.00+1.00=137.00$	4.00	141.00
(ii)	उतारना—			
(क)	प्रति रेलवे वैगन (22 टन की क्षमता वाला—)	$393.00+8.00+16.00+8.00+16.00+2.00=443.00$	12.00	455.00
(ख)	प्रति ट्रक (200 सी०एफ० टी०—)	$173.00+3.00+7.00+3.00+7.00+1.00=194.00$	5.00	199.00
(ग)	प्रति टायर वाली गाड़ी—	$90.00+2.00+4.00+2.00+4.00+0.37=101.37$	1.00	103.37
(घ)	प्रति बैलगाड़ी	$65.00+1.00+3.00+1.00+3.00+0.27=73.27$	2.00	75.27
(8)	प्रति सीमेंट बोड़ा को लादना एवं उतारना—	$13.00+0.26+0.52+0.26+0.52+0.05=14.61$	0.40	15.01
6.	वन का संचालन तथा लकड़ी बनाने के कार्य— (सामान्य कार्य)			
1	अकुशल —	$366.00+7.00+15.00+7.00+15.00+2.00=412.00$	12.00	424.00 प्रतिदिन
2	अर्द्धकुशल—	$380.00+8.00+15.00+8.00+15.00+2.00=428.00$	12.00	440.00 प्रतिदिन
3	कुशल	$463.00+9.00+19.00+9.00+19.00+2.00=521.00$	15.00	536.00 प्रतिदिन
4.	अतिकुशल	$566.00+11.00+23.00+11.00+23.00+2.00=636.00$	18.00	654.00 प्रतिदिन
5.	लिपिकीय/पर्यवेक्षीय	$10478.00+210.00+419.00+210.00+419.00+44.00=11780.00$	332.00	12112.00 प्रतिमाह
खण्ड कार्य —				
(क)	विभिन्न प्रकार के लकड़ी के कुन्दे (लौंग काटने वाला गिराना फालिंग, डिमार्किंग और कौपिस फोरेस्ट में लादने के स्थान में जमा कराना(पोल) सेलेक्स सर्किल में वृक्ष काटकर गिराना लोजिंग(टोना 4"x5"आदि).प्रति क्यूविक मीटर	$8.00+0.16+0.32+0.16+0.32+0.03=8.99$	0.25	9.24

(ख)	कनवरसन ऑफ ट्राम लाईन ऐट फेंसिंग पोस्ट— प्रति टुकड़ा	$11.00+0.22+0.44+0.22+0.44+0.04=12.36$	0.34	12.70
(ग)	कटिंग, कनवरसन इन्क्लूडिंग स्ट्रेंकिंग ऐट साईट आफ फायरउड (साईज क्यूवीक मीटर)—	$109.00+2.00+4.00+2.00+4.00+0.45=121.45$	3.00	124.45
(घ)	बाँस काटना एवं एकत्रित करना—			
(i)	लग्गा—प्रति 100	$314.00+6.00+13.00+6.00+13.00+1.00=353.00$	10.00	363.00
(ii)	टोना—प्रति 100	$252.00+5.00+10.00+5.00+10.00+1.00=283.00$	8.00	291.00
(iii)	सरही— प्रति 100	$109.00+2.00+4.00+2.00+4.00+0.45=121.45$	3.00	124.45
(iv)	चारकोल मैनुफैक्चरिंग— प्रति 35 किलोग्राम का बैग	$79.00+2.00+3.00+2.00+3.00+0.33=89.33$	2.00	91.33
(v)	फीडरग्रास, थैच ग्रास या सेवाल ग्रास— प्रति 35 किलोग्राम बैगका	$79.00+2.00+3.00+2.00+3.00+0.33=89.33$	2.00	91.33
(vi)	साल सीड एवं बोनहिनिया पत्ता जमा करना— प्रति किलोग्राम—	$21.00+0.42+0.84+0.42+0.84+0.08=23.60$	0.7	24.30
7.	असली रेशम, कृत्रिम रेशम तथा स्टेपुल धागों से निर्माण सहित सिल्क उद्योग			
1	अकुशल	$366.00+7.00+15.00+7.00+15.00+2.00=412.00$	12.00	424.00 प्रतिदिन
2	अर्द्धकुशल	$380.00+8.00+15.00+8.00+15.00+2.00=428.00$	12.00	440.00 प्रतिदिन
3	कुशल	$463.00+9.00+19.00+9.00+19.00+2.00=521.00$	15.00	536.00 प्रतिदिन
4.	अतिकुशल	$566.00+11.00+23.00+11.00+23.00+2.00=636.00$	18.00	654.00 प्रतिदिन
5.	लिपिकीय/पर्यवेक्षीय	$10478.00+210.00+419.00+210.00+419.00+44.00=11780.00$	332.00	12112.00 प्रतिमाह
खण्ड कार्य —				
(क)	पावरलूम वीभर— के लिए और प्रतिमीटर एरीचेक उत्कृष्ट कपड़े के लिए—तथा	$21.00+0.42+0.84+0.42+0.84+0.08=23.60$	0.7	24.30
	अन्य प्रति मीटर सादे कपड़े—	$17.00+0.34+0.68+0.34+0.68+0.07=19.11$	1.00	20.11
(ख)	हैंडलूम वीभर— प्रति मीटर सादे कपड़े के लिए—	$30.00+0.60+1.20+1.00+0.12+0.12=33.04$	1.00	34.04
	प्रति मीटर एरीचेक तथा अन्य उत्कृष्ट कपड़े के लिए—	$38.00+0.76+1.52+1.00+1.20+0.15=42.63$	1.00	43.63
	प्रति मीटर तसर, मलवरी, मुंगा कपड़े के लिए—	$41.00+0.82+1.64+1.00+1.64+0.17=46.27$	1.00	47.27

(ग) (i) (क)	पिन बाईन्डर पावरलूम— प्रति किलोग्राम हाथ से तैयार कपड़े	$21.00+0.42+0.84+0.42+0.84+0.08=23.60$	0.7	24.30
(ख)	प्रति किलोग्राम धोने से तैयार कपड़े	$17.00+0.34+0.68+0.34+0.68+0.07=19.11$	1.00	20.11
(ii)	हैंडलूम—प्रति किलोग्राम	$33.00+0.66+1.32+1.00+1.32+0.13=37.43$	1.00	38.43
(घ)	बोविन बाईन्डर—			
(i)	पावरलूम—प्रति किलोग्राम हाथ से तैयार कपड़े	$17.00+0.34+0.68+0.34+0.68+0.07=19.11$	1.00	20.11
(ii)	हैंडलूम—प्रति किलोग्राम	$33.00+0.66+1.32+1.00+1.32+0.13=37.43$	1.00	38.43
(ङ.)	कटाई—छटाई			
	स्टेपुल (प्रति थान 12 मीटर का सिल्क—)	$17.00+0.34+0.68+0.34+0.68+0.07=19.11$	1.00	20.11
8.	मिट्टी काटने का कार्य—			
(क)	मुलायम मिट्टी के लिए प्रति 90 घनफीट	$366.00+7.00+15.00+7.00+15.00+2.00=412.00$	12.00	424.00 प्रतिदिन
(ख)	कड़ी मिट्टी के लिए प्रति 75 घनफीट	$366.00+7.00+15.00+7.00+15.00+2.00=412.00$	12.00	424.00 प्रतिदिन
(ग)	अति कड़ी मिट्टी के लिए प्रति 60 घनफीट	$366.00+7.00+15.00+7.00+15.00+2.00=412.00$	12.00	424.00 प्रतिदिन
नोट:—महिला कामगारों के लिए 15 प्रतिशत कम मिट्टी काटने का निर्णय, परन्तु मजदूरी समान रूप से पायेगे।				
9.	चाय बगान का नियोजन— सामान्य कार्य —			
1	अकुशल —	$366.00+7.00+15.00+7.00+15.00+2.00=412.00$	12.00	424.00 प्रतिदिन
2	अर्द्धकुशल—	$380.00+8.00+15.00+8.00+15.00+2.00=428.00$	12.00	440.00 प्रतिदिन
3	कुशल	$463.00+9.00+19.00+9.00+19.00+2.00=521.00$	15.00	536.00 प्रतिदिन
4.	अतिकुशल	$566.00+11.00+23.00+11.00+23.00+2.00=636.00$	18.00	654.00 प्रतिदिन
5.	लिपिकीय/ पर्यवेक्षीय	$10478.00+210.00+419.00+210.00+419.00+44.00=11780.00$	332.00	12112.00 प्रतिमाह
खण्ड कार्य —				
(क)	तोड़ने वाले 1 किलो ग्राम हरी पत्ती तोड़ने के लिए—	$17.00+0.34+0.68+0.34+0.68+0.07=19.11$	1.00	20.11
(ख)	कुदाली से खोदने में लगे व्यक्ति—0.133 एकड़ जमीन में 40 नाल तैयार करने के लिए—	$53.00+1.00+2.00+1.00+2.00+0.22=59.22$	2.00	61.22
(ग)	मिराई और विसाखन (फोरकिंग में लगे व्यक्ति) प्रति 100 चाय झाड़ी (टी वुश) पर—	$53.00+1.00+2.00+1.00+2.00+0.22=59.22$	2.00	61.22

10.	लाह निर्माण (सामान्य कार्य) —			
1	अकुशल —	$366.00+7.00+15.00+7.00+15.00+2.00=412.00$	12.00	424.00 प्रतिदिन
2	अर्द्धकुशल—	$380.00+8.00+15.00+8.00+15.00+2.00=428.00$	12.00	440.00 प्रतिदिन
3	कुशल	$463.00+9.00+19.00+9.00+19.00+2.00=521.00$	15.00	536.00 प्रतिदिन
4.	अतिकुशल	$566.00+11.00+23.00+11.00+23.00+2.00=636.00$	18.00	654.00 प्रतिदिन
5.	लिपिकीय/ पर्यवेक्षीय	$10478.00+210.00+419.00+210.00+419.00+44.00=11780.00$	332.00	12112.00 प्रतिमाह
खण्ड कार्य —				
(क)	कारीगर—प्रति 40 किलो सीड लाह मेलटिंग के लिए—	$221.00+4.00+9.00+4.00+9.00+1.00=248.00$	7.00	255.00
(ख)	वेलवईया—प्रति 40 किलो सीड लाह मेलटिंग के लिए—	$190.00+4.00+8.00+4.00+8.00+1.00+0.48=215.48$	6.00	221.48
(ग)	फरवईया— प्रति 40 किलो सीड लाह मेलटिंग के लिए—	$115.00+2.00+5.00+2.00+5.00+0.48=129.48$	4.00	133.48
(घ)	कामीन एवं घोधियाहीन— प्रति 40 किलो सीड लाह की भूसी, मुलम्मा एवं सैंड को निकालने एवं धोने लिए —	$57.00+1.00+2.00+1.00+2.00+0.23=63.23$	2.00	65.23
(ङ.)	करहिया, रंगकरहिया, घसंदर एवं मैयनदर—प्रति 40 किलोसीड लाह की धोलाई मसीन से धोने के लिए—	$53.00+1.00+2.00+1.00+2.00+0.22=59.22$	2.00	61.22
(च)	टेलर (खलिफा)— (1) जब अपना मसीन व्यवहार करे (प्रति भट्ठा) —	$31.00+0.62+1.24+1.00+1.24+0.13=35.23$	1.00	36.23
	(2) जब नियोजक का मसीन व्यवहार करे (प्रति भट्ठा)—	$17.00+0.34+0.68+0.34+0.68+0.07=19.11$	1.00	20.11
(छ)	क्रशर— प्रति 40 किलो स्टीक लाह—	$38.00+0.76+1.52+1.00+1.52+0.15=42.95$	1.00	43.95
(ज)	ब्रेकर— प्रति 40 किलो स्टीक लाह—	$33.00+0.66+1.32+1.00+1.32+0.13=37.43$	1.00	38.43
11.	पावरलूम इन्डस्ट्रीज (बिजली करघा)—			
	सामान्य कार्य —			
1.	अकुशल —	$366.00+7.00+15.00+7.00+15.00+2.00=412.00$	12.00	424.00 प्रतिदिन

2.	अर्द्धकुशल—	$380.00+8.00+15.00+8.00+15.00+2.00=428.00$	12.00	440.00 प्रतिदिन
3.	कुशल	$463.00+9.00+19.00+9.00+19.00+2.00=521.00$	15.00	536.00 प्रतिदिन
4.	अतिकुशल	$566.00+11.00+23.00+11.00+23.00+2.00=636.00$	18.00	654.00 प्रतिदिन
5.	लिपिकीय/ पर्यवेक्षीय	$10478.00+210.00+419.00+210.00+419.00+44.00=11780.00$	332.00	12112.00 प्रतिमाह
खण्ड कार्य—				
	पीक—	$21.00+0.42+0.84+0.42+0.84+0.08=23.60$	0.7	24.30
	26	$21.00+0.42+0.84+0.42+0.84+0.08=23.60$	0.7	24.30
	28	$21.00+0.42+0.84+0.42+0.84+0.08=23.60$	0.7	24.30
	30	$21.00+0.42+0.84+0.42+0.84+0.08=23.60$	0.7	24.30
	32	$21.00+0.42+0.84+0.42+0.84+0.08=23.60$	0.7	24.30
	34	$21.00+0.42+0.84+0.42+0.84+0.08=23.60$	0.7	24.30
	36	$21.00+0.42+0.84+0.42+0.84+0.08=23.60$	0.7	24.30
	40	$21.00+0.42+0.84+0.42+0.84+0.08=23.60$	0.7	24.30
	42	$30.00+0.60+1.20+1.00+1.20+0.12=34.12$	1.00	35.12
	44	$30.00+0.60+1.20+1.00+1.20+0.12=34.12$	1.00	35.12
	46	$30.00+0.60+1.20+1.00+1.20+0.12=34.12$	1.00	35.12
	48	$30.00+0.60+1.20+1.00+1.20+0.12=34.12$	1.00	35.12
	50	$38.00+0.76+1.52+1.00+1.52+0.15=42.95$	1.00	43.95
	52	$38.00+0.76+1.52+1.00+1.52+0.15=42.95$	1.00	43.95
12.	केन्दु पत्ता तोड़ने एवं तैयार करने के नियोजन—			
1	अकुशल —	$366.00+7.00+15.00+7.00+15.00+2.00=412.00$	12.00	424.00 प्रतिदिन
2	अर्द्धकुशल—	$380.00+8.00+15.00+8.00+15.00+2.00=428.00$	12.00	440.00 प्रतिदिन
3	कुशल	$463.00+9.00+19.00+9.00+19.00+2.00=521.00$	15.00	536.00 प्रतिदिन
4.	अतिकुशल	$566.00+11.00+23.00+11.00+23.00+2.00=636.00$	18.00	654.00 प्रतिदिन
5.	लिपिकीय/ पर्यवेक्षीय	$10478.00+210.00+419.00+210.00+419.00+44.00=11780.00$	332.00	12112.00 प्रतिमाह
खण्ड कार्य—				
(क)	पत्ता तोड़ना प्रति 50000 पत्ते अथवा 60 पैसा प्रति 50 पत्ते—	$1344.00+27.00+54.00+27.00+54.00+6.00=1512.00$	43.00	1555.00
(ख)	बोरा भरना—			
	प्रति छोटा बोरा—	$21.00+0.42+0.84+0.42+0.84+0.08=23.60$	0.7	24.30
	प्रति बड़ा बोरा—	$41.00+0.82+1.64+1.00+1.64+0.17=46.27$	1.00	47.27
(ग)	ग्रेड में छोटना और बन्डल बनाना प्रतिबिन्डा (5 किलो का)—	$41.00+0.82+1.64+1.00+1.64+0.17=46.27$	1.00	47.27

परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता की दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के उस विन्दु पर आधारित होगा जिसपर उपर्युक्त अनुसूचित नियोजनों में न्यूनतम मजदूरी की दरें निर्धारित/पुनरीक्षित की गई है। उपर्युक्त सूचकांक में यथास्थिति वृद्धि अथवा ह्रास के अनुसार न्यूनतम मजदूरी की दरों में उपर्युक्त अनुसूचि के स्तंभ -4 में अंकित दर से वृद्धि या कमी की जायेगी और उसे परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता का अंश समझा जायेगा। परन्तु यदि सूचकांक उस विन्दु से कम हो जाय जिस पर न्यूनतम मजदूरी की दरें निर्धारित/पुनरीक्षित की गई है, तो निर्धारित/पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उस खंड दर पर परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता भुगतान उपर्युक्त दर से **जुलाई-दिसम्बर, 2024** के औसत के आधार पर **1 अप्रैल, 2025** से देय होगा और इसके बाद प्रत्येक छः महीने के अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता की राशि में वृद्धि अथवा कमी संबंधित छमाही के तीन महीने बाद से लागू होगा।

टिप्पणी:-(क) न्यूनतम मजदूरी की मासिक दरों का दैनिक मजदूरी की दरों में परिवर्तन 26 से भाग देकर तथा दैनिक मजदूरी की दरों का मासिक मजदूरी की दरों में परिवर्तन 26 से गुणा करके प्राप्त किया जायेगा।

(ख) न्यूनतम मजदूरी की उपर्युक्त प्रस्तावित दरों में सात दिनों की अवधि में विश्राम के दिन के लिए कर्मचारियों को देय पारिश्रमिक शामिल है।

(ग) साप्ताहिक विश्राम के दिन अथवा अन्य किसी दिन समयोपरि (**Overtime**) कार्य के लिए कामगार बिहार न्यूनतम मजदूरी नियमावली, 1951 के नियम-25 में विहित दर से समयोपरि काम का दो गुणा मजदूरी भुगतान पाने का हकदार होगा।

(घ) पुरुष तथा स्त्री कामगार एक ही काम या उसी प्रकार के काम के लिए समान दर पर मजदूरी पायेंगे।

(सं०-5/एम०डब्ल्यू०-40-18/2021 श्र०सं०-1665)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

राजीव रंजन,
संयुक्त सचिव।

28 मार्च 2025

एस०ओ० 78 एस०ओ० 77 दिनांक 9 अप्रैल, 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्य के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा

(सं०-5/एम०डब्ल्यू०-40-18/2021 श्र०सं०-1666)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

राजीव रंजन,
संयुक्त सचिव।

The 28th March 2025

S.O. 77 Date 9 April 2025—In exercise of the powers conferred by section -3 of the Minimum Wages Act, 1948 (XI of 1948), read with the clause (B) of sub-section(1) of Section-5 of the said act, the Governor of Bihar is pleased to introduce the formula for Variable Dearness Allowance in the minimum rates of wages fixed/ revised for the different categories of employees employed in the scheduled employments mentioned in column-02 of schedule 1(B) here to appended for the months shown in column-1 of the said schedule shall be shown in column-04 of the schedule 1(A) for the purpose of clause (d) of section-02 of the said Act.

Schedule-1 (A)

Month & Year	Index No Base Year (2016-100)	Link Factor Change for base year	Changed Index No. for base year (1960-100)
1	2	3	4
July, 2024	142.7	4.63 X4.93 X2.88	9380.89
August, 2024	142.6	4.63 X4.93 X2.88	9374.32
September, 2024	143.3	4.63 X4.93 X2.88	9420.34
October, 2024	144.5	4.63 X4.93 X2.88	9499.22
November, 2024	144.5	4.63 X4.93 X2.88	9499.22
December, 2024	143.7	4.63 X4.93 X2.88	9446.63
Total			54740.5
Second First Yearly Average of the year July to Decembe,2024.			56620÷ 6=9436.77

SCHEDULE-I (B)

Sl.no	Name of employment	Reference of Notification and Gazette for the rates effective from 01.04.2024	Total
1	2	3	4
1	1- Stone Breaking and Stone Crushing Operation 2- Bidi Making Manufacturing 3- Brick Manufactor 4- Hair Cutting Saloon 5- Loading and Unloading 6- Forestry and Timbering Operation 7- Silk Industries including Manufacturing from pure Silk Artificial Silk and other staple Yarn 8- Earth Cutting Operation 9- Tea PLatation10- Lac Manufactory 11- Power Loom Industr 12- Plucking and Processing of Kendu Leave-	Notification No- -11,12 Date-30.09.2024 Gazette No.- -1099 Date-21.11.2024	12 Empl oyme nt

Schedule-II

Sl. No	Categories of Worker	From Dated-01.09.2022+ 01.10.2022+01.04.2023+ 01.10.2023 + 01.04+2024 +01.10.2024 Minimum Wages Fixed (In. Rs.)	Amount of V.D.A. which is effective from the date- 01.04.2025 (In Rs.)	Total rates of wages effective from the date 01.04.2025 Column (3+4)
1	2	3	4	5
1.	<u>Stone Breaking & Stone Crushing Operations</u>			
	<u>General Work</u>			
1.	Unskilled	366.00+7.00+15.00+7.00+15.00+2.00 =412.00	12.00	424.00 Perday
2.	Semiskilled	380.00+8.00+15.00+8.00+15.00+2.00 =428.00	12.00	440.00 Perday
3.	Skilled	463.00+9.00+19.00+9.00+19.00+2.00 =521.00	15.00	536.00 Perday
4.	Highly Skilled	566.00+11.00+23.00+11.00+23.00+2.00=636.00	18.00	654.00 Perday
5.	Clerical /Supervisory	10478.00+210.00+419.00+210.00+419.00+44.00=11780.00	332.00	12112.00 Permonth

	<u>Piece Work</u>		
I.	Mining & Carrying by Bullock Cart-		
(a)	Within up to quarter mile per 100 Cft-	794.00+16.00+32.00+16.00+32.00+3.00=893.00	25.00
			918.00 Perday

(b)	For every above quarter mile of carrying per 100/- Cft—	$182.00+4.00+7.00+4.00+7.00+1.00=205.00$	6.00	211.00 Perday
II.	Mining chelly breaking and transport by trolley per tub- of 25ft-	$197.00+4.00+8.00+4.00+8.00+1.00=222.00$	6.00	228.00 Perday
III	Chelly breaker from boulder per 100/-Cft-	$197.00+4.00+8.00+4.00+8.00+1.00=222.00$	6.00	228.00 Perday
IV.	Ballast Breaker from boulder- per 100/-Cft--			
(a)	2"x3"	$413.00+8.00+17.00+8.00+17.00+2.00=465.00$	13.00	478.00
(b)	2"X2-50"	$518.00+10.00+21.00+10.00+21.00+2.00=582.00$	13.00	595.00
(c)	1-50"X2"	$616.00+12.00+25.00+12.00+25.00+3.00=693.00$	20.00	713.00
(d)	1"	$1017.00+20.00+41.00+20.00+41.00+4.00=1143.00$	32.00	1175.00
V.	Breaking Ballast from telai-Per Box of 5ft-	$67.00+1.00+3.00+1.00+3.00+0.28=75.28$	2.00	77.28
VI.	Chips Breaker-			
(a)	Hand made chips of 3/4"Dn- per Cft- -	$33.00+0.66+1.32+1.00+1.32+0.11=37.41$	1.00	38.41
(b)	Hand made chips of 1" Dn- per Cft- -	$33.00+0.66+1.32+1.00+1.32+0.11=37.41$	1.00	38.41

VII.	Earth Cutting -			
(a)	For soft earth- per 90 Cft-	$366.00+7.00+15.00+7.00+15.00+2.00=412.00$	12.00	424 Perday
(b)	For hard earth per 75 Cft-	$366.00+7.00+15.00+7.00+15.00+2.00=412.00$	12.00	424 Perday
(c)	For highly hand earth- per 60 Cft-	$366.00+7.00+15.00+7.00+15.00+2.00=412.00$	12.00	424 Perday
Note:- Decision of 15% less earth cutting for women worker, but will gate equal wage-				
VIII	Borers and Drollers per ft-	$49.00+0.98+2.00+1.00+2.00+0.20=55.18$	2.00	57.18 Perday
IX.	Mines (Including boulders carrying Head load within a quarter mile-) per 25 Cft.	$239.00+5.00+10.00+5.00+10.00+1.00=270.00$	8.00	278.00 Perday
X.	Wagon Loaders full head of Board gauges wagon(500 cubic ft-) per Wagon load-	$658.00+13.00+26.00+13.00+26.00+3.00=739.00$	21.00	760.00 Perday

XI.	Stone Set (Stone Bricks) Per 100 Pcs.				
(a)	Breaking Size (9"x6"x4")	814.00+16.00+33.00+16.00 +33.00+3.00=915.00	26.00	941.00	
(b)	Stone Set (Stone Bricks Polishing)	449.00+9.00+18.00+9.00+ 18.00+1.00=504.00	14.00	518.00	
(c)	Stone Set (Stone Bricks Cautting & Transporting) for 3 to 4 mile -	366.00+7.00+15.00+7.00+ 15.00+2.00=412.00	12.00	424.00	
2.	<u>Bidi Making Manufacture :-</u>				
	<u>General Work</u>				
1	Unskilled	366.00+7.00+15.00+7.00 +15.00+2.00=412.00	12.00	424.00	Perday
2	Semiskilled	380.00+8.00+15.00+8.00 +15.00+2.00=428.00	12.00	440.00	Perday
3	Skilled	463.00+9.00+19.00+9.00 +19.00+2.00=521.00	15.00	536.00	Perday
4	Highly Skilled	566.00+11.00+23.00+11.00 +23.00+2.00=636.00	18.00	654.00	Perday
5	Clerical/Supervisory	10478.00+210.00+419.00 +210.00+419.00+ 44.00=11780.00	332.00	12112.00	Permonth
	<u>Piece Work</u>				
	1. Libeling				
(a)	Libeling (Single) per lakh	449.00+9.00+18.00+9.00+2.00 +18.00+2.00=507.00	16.00	523.00	
(b)	Libeling (double) per lakh	466.00+9.00+19.00+9.00+19.00 +2.00=524.00	15.00	539	
II.	<u>Sekai Work-</u>				
(a)	Employees employed in Sekai by any process Bidi Other than Tandoor. Per Lakh Bidi. other than tandoor- per lakh	216.00+4.00+9.00+4.00+ +9.00+1.00=243.00	7.00	250.00	
(b)	Sekai by Tandoor per lakh Bidi	220.00+4.00+9.00+4.00+9.00 +1.00=247.00	7.00	254.00	
(c)	Packing (Basket packing) per lakh	225.00+5.00+9.00+5.00 +9.00+1.00=254.00	7.00	261.00	
3.	<u>Brick Manufactory-</u>				
I	<u>General Work-</u>				
1	Unskilled	366.00+7.00+15.00+7.00+15.00+2. 00=412.00	12.00	424.00	Perday
2	Semiskilled	380.00+8.00+15.00+8.00+15.00+2. 00=428.00	12.00	440.00	Perday
3	Skilled	463.00+9.00+19.00+9.00+19.00+2. 00=521.00	15.00	536.00	Perday
4	Highly Skilled	566.00+11.00+23.00+11.00 +23.00+2.00=636.00	18.00	654.00	Perday

5	Clerical /Supervisory	10478.00+210.00+419.00 +210.00+419.00+ 44.00=11780.00	332.00	12112.00 Per Month
II.	<u>Piece Work</u>			
(i)	Brick moulders (inclusive of cutting earth, kneading earth, watering earth, carrying earth to parria) per thousand bricks-	535.00+11.00+21.00+11.00+21. 00 +2.00=601.00	17.00	618.00 Perday
(ii)	Loading & unloading of Bricks in Bhattha) per 1000 bricks & unsilled Labour per day.	366.00+7.00+15.00+7.00+15.00+ 2.00 =412.00	12.00	424.00 Perday
(iii)	Mistri	10111.00+202.00+404.00+202.0 0+ 404.00+43.00= 11366.00	360.00	11726.00 Permonth
III.	<u>IN CHIMNEYS</u>			
(i)	Brick moulder (inclusive of cutting earth, kneading earth, watering earth, and carrying earth to pariah & Pug mill. Per 1000 bricks.	472.00+9.00+19.00+9.00+19.00 +2.00=530.00	15.00	545.00 Perday
(ii)	Bricks Loading and Unloading of per 1000 & Unskilled Labour- per day.	366.00+7.00+15.00+7.00+15.00 +2.00=412.00	12.00	424 Perday
(iii)	Fireman	11238.00+225.00+450.00+225.00+ 450.00+47.00= 12635.00	356.00	12991.00 Permonth
(iv)	Coalman/Chowkidar/F ire Khalalsi & Rublishman.	9478.00+190.00+379.00+190.00+3 79.00+40.00= 10656.00	300.00	10956.00 Permonth
(v)	Mate/Over Supervisor &Mistry.	10857.00+217.00+434.00+217.00+ 434.00+46.00= 12205.00	344.00	12549.00 Permonth
(vi)	Munshi	11462.00+229.00+458.00+229.00+ 458.00+48.00=12884.00	363.00	13247 Permonth

4.	Hair Cutting Saloon -			
	General Work –			
1	Unskilled	366.00+7.00+15.00+7.00+15.00 +2.00=412.00	12.00	424.00 Perday
2	Semiskilled	380.00+8.00+15.00+8.00+15.00 +2.00=428.00	12.00	440.00 Perday
3	Skilled	463.00+9.00+19.00+9.00+19.00 +2.00=521.00	15.00	536.00 Perday

4	Highly Skilled	566.00+11.00+23.00+11.00 +23.00+2.00=636.00	18.00	654.00 Perday
5	Clerical /Supervisory	10478.00+210.00+419.00 +210.00+419.00+ 44.00=11780.00	332.00	12112.00 Permonth
Piece Work				
I.	Per Hair Cutting.	51.00+1.00+2.00+1.00+2.00 +0.21=57.21	62.00	59.21
II.	Per shaving.	17.00+0.34+0.68+0.34+0.68 +0.07=19.11	1.00	20.11
III	Per hair cutting & shaving.	63.00+1.00+3.00+1.00+3.00 +0.26=71.26	2.00	73.26
IV	Per Sar Mundan	38.00+0.76+1.52+1.00+1.20 +0.15= 42.63	1.00	43.63
V	Per Hair Cutting of Children.s	30.00+0.60+1.20+1.00+1.20 +0.12= 34.12	1.00	35.12
Vi	Per Sar Malish.	13.00+0.26+0.52+0.26+0.52 +0.05= 14.71	0.4	15.11
VII	Per Shampoo.	30.00+0.60+1.20+1.00+0.12 +0.12=33.04	1.00	34.04
VIII	Per hair Dying.	148.00+3.00+6.00+3.00+6.00 +0.62+=166.62	5.00	171.62
5.	Loading or Unloading Operation-			
	General Work-			
1	Unskilled	366.00+7.00+15.00+7.00+15.00+ 2.00 =412.00	12.00	424.00 Perday
2	Semiskilled	380.00+8.00+15.00+8.00+15.00 +2.00=428.00	12.00	440.00 Perday
3	Skilled	463.00+9.00+19.00+9.00+19.00 +2.00=521.00	15.00	536.00 Perday
4	Highly Skilled	566.00+11.00+23.00+11.00+23. 00+ 2.00=636.00	18.00	654.00 Perday
5	Clerical /Supervisory	10478.00+210.00+419.00+210.00+ 419.00+44.00= 11780.00	332.00	12112.00 Permonth
Piece Work				
Loading or UN loading of Bags, Gur Chakkies, Fertilizer bales of cloths, Jute, Cotton etc- tin or drum of Kerosene oil, Mustered Oil, Coconut Oil and other oil, Dalda Malases, Paints tar etc- or any other load, not specified in this schedule from Godown or Shop or storage place to railways wagon, truck, Bullock cart, etc- or from one place to another place and vice -versa for carrying loads every 200 meters or parts there fo per load of.				
I	Less than 20 kg-	6.00+0.12+0.24+0.12+0.24+0.02=6.74	0.2	6.94
II	From 20 to 40 Kg-	8.00+0.16+0.32+0.16+0.32+0.03= 8.99	0.25	9.24
III	From 41 Kg- to 65 Kg-	10.00+0.20+0.40+0.20+0.40+0.04=11.24	0.31	11.55
IV	From 66 Kg- to 85 Kg-	13.00+0.26+0.52+0.26+0.52+0.05=14.61	0.41	15.02

V	From 86 Kg- to 100 Kg-	$18.00+0.36+0.72+0.36+0.72+0.07=20.23$	1.00	21.23
VI	From 101 Kg- and above (Rupees for every Two Kg-load over 101 kg.)	$(19.26+3.09)+(0.38+0.06)+(0.77+0.12)+(0.38+0.06)+(0.77+0.12)+(0.08+0.01)= (21.64+3.46)$	(0.61+0.10)	(22.25+3.56)
Filling or weighing or welding of this and drums or arranging of Bags , tins , drums and other loads within the same premises				
(i)	Filling or refilling or arranging of Bags, tins and any other load (per load of) -			
(a)	Up to 40 Kg-	$5.00+0.10+0.20+0.10+0.20+0.20=5.80$	0.16	5.96
(b)	From 41 Kg- to 65 Kg-	$8.00+0.16+0.32+0.16+0.32+0.03=8.99$	0.25	9.24
(c)	From 66 Kg- to 100 Kg-	$10.00+0.20+0.40+0.20+0.40+0.04=11.24$	0.31	11.55
(d)	101 Kg- and above (Rupees for every 10 Kg-load over 101 Kg-)	$(19.14+4.31)+(0.38+0.08)+(0.77+0.17)+(0.38+0.08)+(0.77+0.17)+(0.08+0.01)= (21.52+5.49)$	(0.60+0.13)	(22.12+5.62)
(ii)	Sewing of Bags of welding of tins or weighing of load above 10Kg- on scale	$5.00+0.10+0.20+0.10+0.20+0.20=5.80$	0.16	5.96
Loading or Unloading of Bamboo, wooden poles, Wooden logs, fuel wood and sugar cane.				
(i)	Loading of Bamboo and Wooden Poles:-			
(a)	Per Railway wagon	$737.00+15.00+29.00+15.00+29.00+3.00=828.00$	23.00	851.00
(b)	Per Truck	$350.00+7.00+14.00+7.00+14.00+1.00=393.00$	11.00	404.00
(c)	Per Tyre cart	$101.00+2.00+4.00+2.00++4.00+0.42=113.42$	3.00	116.42
(d)	Per bullock cart	$71.00+1.00+3.00+1.00+3.00+0.29=79.29$	2.00	81.29
(ii)	Loading of wooden logs and fuel woods :-			
(a)	Per railways wagon	$737.00+15.00+29.00+15.00+29.00+3.00=828.00$	23.00	851.00
(b)	Per truck	$350.00+7.00+14.00+7.00+14.00+1.00=393.00$	11.00	404.00
(c)	Per tyre cart	$101.00+2.00+4.00+2.00++4.00+0.42=113.42$	3.00	116.42
(d)	Per bullock cart	$71.00+1.00+3.00+1.00+3.00+0.29=79.29$	2.00	81.29
(iii)	Unloading of Bamboo Wooden poles, wooden logs and wood :-			
(a)	Per railways wagon	$239.00+5.00+10.00+5.00+10.00+1.00=270.00$	8.00	278.00
(b)	Per truck	$101.00+2.00+4.00+2.00++4.00+0.42=113.42$	3.00	116.42

(c)	Per tyre cart	$35.00+0.70+1.40+0.70+1.40+0.14=39.34$	1.00	40.34
(d)	Per bullock cart	$21.00+0.42+0.84+0.42+0.84+0.08=23.60$	0.07	23.67
(iv)	Loading and Unloading of Sugar Cane Per quintal	$13.00+0.26+0.52+0.26+0.52+0.05=14.61$	0.41	15.02
Loading and Unloading of Bricks, Fire Bricks, tiles, Fragile wares made of cement or clay or glass, Boulders Ballast, chelly and coal-				
(i)	Loading and Unloading of Fire Bricks, tiles, fragils, water made of cement or clay or Glass-			
(a)	Per railways wagon	$2015.00+40.00+81.00+40.00+81.00+8.46=2265.46$	64.00	2329.46
(b)	Per truck	$875.00+18.00+35.00+18.00+35.00+3.67=985.00$	28.00	1013.00
(c)	Per tyre cart	$253.00+5.00+10.00+5.00+10.00+1.00=284.00$	8.00	292.00
(d)	Per bullock cart	$177.00+4.00+7.00+4.00+7.00+1.00=200.00$	6.00	206.00
(ii)	Loading of Bricks:----			
(a)	Per railways wagon	$1570.00+31.00+63.00+31.00+63.00+7.00=1765.00$	50.00	1815.00
(b)	Per truck	$737.00+15.00+29.00+15.00+29.00+3.00=828.00$	23.00	851.00
(c)	Per tyre cart	$213.00+4.00+9.00+4.00+9.00+0.89=239.89$	7.00	246.89
(d)	Per bullock cart	$155.00+3.00+6.00+3.00+6.00+0.65=173.65$	5.00	178.65
(iii)	Unloading of Brick-			
(a)	Per railways wagon	$1033.00+21.00+41.00+21.00+41.00+4.00=1161.00$	33.00	1194.00
(b)	Per truck	$499.00+10.00+20.00+10.00+20.00+2.00=561.00$	16.00	577.00
(c)	Per tyre cart	$155.00+3.00+6.00+3.00+6.00+0.65=173.65$	5.00	178.65
(d)	Per bullock cart	$101.00+2.00+4.00+2.00+4.00+0.42=113.42$	3.00	116.42
(iv)	<u>Loading & Unloading of Stone chips & Challi-</u>			
(a)	Loading per 100 cft -	$130.00+3.00+5.00+3.00+5.00+0.54=146.54$	4.00	150.54
(b)	Unloading per100cft -	$89.00+2.00+4.00+2.00+4.00+0.37=101.37$	3.00	104.37
(v)	<u>Loading & Unloading of Ballast & Bolders -</u>			
(a)	Loading per 100 cft -	$123.00+2.00+5.00+2.00+5.00+0.51=137.51$	4.00	141.51
(b)	Unloading per100cft -	$89.00+2.00+4.00+2.00+4.00+0.37=101.37$	3.00	104.37

Loading, Unloading of iron rods, G-sheet, Iron Pipes, humepipe, Machineries equipments and other hard wires:-				
(i)	<u>Loading-</u>			
(a)	Per railways wagon	1764.00+35.00+71.00+35.00 +71.00+7.00=1983.00	56.00	2039.00
(b)	Per truck	814.00+16.00+33.00+16.00 +33.00+3.00=915.00	26.00	941.00
(c)	Per tyre cart	237.00+5.00+9.00+5.00+9.00 +1.00=266.00	8.00	274.00
(d)	Per bullock cart	200.00+4.00+8.00+4.00+8.00 +1.00=225.00	6.00	231.00
(ii)	<u>Unloading</u>			
(a)	Per railways wagon	1190.00+24.00+48.00+24.00 +48.00+5.00=1339.00	38.00	1377.00
(b)	Per truck	601.00+12.00+24.00+12.00 +24.00+3.00=676.00	19.00	695.00
(c)	Per tyre cart	182.00+4.00+7.00+4.00+7.00 +1.00=205.00	6.00	211.00
(d)	Per bullock cart	122.00+2.00+5.00+2.00+5.00 +1.00+2.00=137.00	4.00	141.00
(6)	Loading and Unloading of coal.	366.00+7.00+15.00+7.00+15.00 +2.00 =412.00	12.00	424.00 Perday
(i)	<u>Loading-</u>			
(a)	Per railways wagon 4 wheel (Wagon of 22 tones capacity).	712.00+14.00+28.00+14.00 +28.00+3.00=799.00	23.00	822.00
(b)	Per truck 200 Cft-	443.00+9.00+18.00+9.00+18.00+ 2.00=499.00	14.00	513.00
(c)	Per tyre cart	122.00+2.00+5.00+2.00+5.00 +1.00=137.00	4.00	141.00
(d)	Per bullock cart	101.00+2.00+4.00+2.00+4.00+ 0.42=113.42	3.00	116.42
(ii)	<u>Unloading</u>			
(a)	Per railways wagon (Wagon of 22 tones capacity)	483.00+10.00+19.00+10.00 +19.00+2.00=543.00	15.00	558.00
(b)	Per truck 200Cft-	279.00+6.00+11.00+6.00+11.00 +1.00=314.00	9.00	323.00
(c)	Per tyre cart	66.00+1.00+3.00+1.00+3.00 +0.29 =74.29	2.00	76.29
(d)	Per bullock cart	41.00+0.82+1.64+0.82+1.64 +0.17=46.09	1.00	47.09
(7)	Loading and Unloading of lime and clay and earth etc-	366.00+7.00+15.00+7.00+15.00 +2.00=412.00	12.00	424.00

(i)	Loading			
(a)	Per railways wagon (Wagon of 22 tones capacity)	$557.00+11.00+22.00+11.00+22.00+2.00=625.00$	18.00	643.00
(b)	Per truck 200 Cft-	$324.00+6.00+13.00+6.00+13.00+1.00=363.00$	10.00	373.00
(c)	Per tyre cart	$159.00+3.00+6.00+3.00+6.00+1.00=178.00$	5.00	183.00
(d)	Per bullock cart	$122.00+2.00+5.00+2.00+5.00+1.00=137.00$	4.00	141.00

(ii)	Unloading			
(a)	Per railways wagon (4 wheel (Wagon of 22 tones capacity)	$393.00+8.00+16.00+8.00+16.00+2.00=443.00$	12.00	455.00
(b)	Per truck 200 Cft-	$173.00+3.00+7.00+3.00+7.00+1.00=194.00$	5.00	199.00
(c)	Per tyre cart	$90.00+2.00+4.00+2.00+4.00+0.37=102.37$	1.00	103.37
(d)	Per bullock cart	$65.00+1.00+3.00+1.00+3.00+0.27=73.27$	2.00	75.27
(8)	Loading and Unloading of cement per bag-	$13.00+0.26+0.52+0.26+0.52+0.05=14.61$	0.40	15.01

6 Forestry and Timbering Operation-

General Work

1	Unskilled	$366.00+7.00+15.00+7.00+15.00+2.00=412.00$	12.00	424.00 Perday
2	Semiskilled	$380.00+8.00+15.00+8.00+15.00+2.00=428.00$	12.00	440.00 Perday
3	Skilled	$463.00+9.00+19.00+9.00+19.00+2.00=521.00$	15.00	536.00 Perday
4	Highly Skilled	$566.00+11.00+23.00+11.00+23.00+2.00=636.00$	18.00	654.00 Perday
5	Clerical /Supervisory	$10478.00+210.00+419.00+210.00+419.00+44.00=11780.00$	332.00	12112.00 Permonth

Piece Work

(a)	Log cutter of various sizes falling demarking and stocking at loading sits at copies forest, pole-(4"x5") Per cubic meter.	$8.00+0.16+0.32+0.16+0.32+0.03=8.99$	0.25	9.24
(b)	Conversion of tram line and fencing post per piece	$11.00+0.22+0.44+0.22+0.44+0.04=12.36$	0.34	12.70

(c)	Cutting conversion including Stacking at site of fire wood (size per cubic meter)	$109.00+2.00+4.00+2.00+4.00+0.45=121.45$	3.00	124.45
(d)	Cutting and Collecting of bamboo(including siding) Per 100 piece-			
(i)	Loggas - Per 100 Pcs.	$314.00+6.00+13.00+6.00+13.00+1.00=353.00$	10.00	363.00
(ii)	Tonnas - Per 100 Pcs	$252.00+5.00+10.00+5.00+10.00+1.00=283.00$	8.00	291.00
(iii)	Sorahi- Per 100 Pcs	$109.00+2.00+4.00+2.00+4.00+0.45=121.45$	3.00	124.45
(iv)	Charcoal Manufactory per bag(35Kg)	$79.00+2.00+3.00+2.00+3.00+0.33=89.33$	2.00	91.33
(v)	Fidder Grass, or thatch grass or sewal grass (per k.g.)	$79.00+2.00+3.00+2.00+3.00+0.33=89.33$	2.00	91.33
(vi)	Sal seed & Bonhimia leaves collection (Per kg)	$21.00+0.42+0.84+0.42+0.84+0.08=23.60$	0.7	24.30
7.	Silk Industry including Manufacturer from pure silk, artificial silk and other staple yarn-			
	General Work-			
1	Unskilled	$366.00+7.00+15.00+7.00+15.00+2.00=412.00$	12.00	424.00 Perday
2	Semiskilled	$380.00+8.00+15.00+8.00+15.00+2.00=428.00$	12.00	440.00 Perday
3	Skilled	$463.00+9.00+19.00+9.00+19.00+2.00=521.00$	15.00	536.00 Perday
4	Highly Skilled	$566.00+11.00+23.00+11.00+23.00+2.00=636.00$	18.00	654.00 Perday
5	Clerical /Supervisory	$10478.00+210.00+419.00+210.00+419.00+44.00=11780.00$	332.00	12112.00 Permonth
	Piece Work-			
(a)	Power loom weaver Per meter for plain cloth	$21.00+0.42+0.84+0.42+0.84+0.08=23.60$	0.7	24.30
	and per meter for Erimchek & other fine cloth	$17.00+0.34+0.68+0.34+0.68+0.07=19.11$	1.00	20.11
(b)	Handloom Weaver Per meter for Plain cloth -	$30.00+0.60+1.20+1.00+0.12+0.12=33.04$	1.00	34.04
	Per Meter for erimchek	$38.00+0.76+1.52+1.00+1.20+0.15=42.63$	1.00	43.63
	Per Meter Tusser mulberry and munga cloth-	$41.00+0.82+1.64+1.00+1.64+0.17=46.27$	1.00	47.27

(c) Pin Wider				
(i)	Power loom if prepared for cloth Per Kg- Hank	$21.00+0.42+0.84+0.42+0.84+0.08=23.60$	0.7	24.30
	prepared from care cloth	$17.00+0.34+0.68+0.34+0.68+0.07=19.11$	1.00	20.11
(ii)	Handloom per Kg	$33.00+0.66+1.32+1.00+1.32+0.13=37.43$	1.00	38.43
(d) Bobbin Winder				
(i)	Power loom Per kg if prepared hand cloth-	$17.00+0.34+0.68+0.34+0.68+0.07=19.11$	1.00	20.11
(ii)	Handloom per Kg	$33.00+0.66+1.32+1.00+1.32+0.13=37.43$	1.00	38.43
(e) Cutting & Shaping-				
(i)	Stable per than of 12 meter- Silk	$17.00+0.34+0.68+0.34+0.68+0.07=19.11$	1.00	20.11
8. Earth Cutting Operation----				
(a)	For every 90 cubic ft- of soft earth-	$366.00+7.00+15.00+7.00+15.00+2.00=412.00$	12.00	424.00 Perday
(b)	For every 75 cubic ft- of hard earth-	$366.00+7.00+15.00+7.00+15.00+2.00=412.00$	12.00	424.00 Perday
(c)	For every 60 cubic ft-of highly hard earth	$366.00+7.00+15.00+7.00+15.00+2.00=412.00$	12.00	424.00 Perday
Note:- Decision of 15% less earth cutting for women worker, but will gate equal wage-				
9. Tea Plantation -				
General Work				
1	Unskilled	$366.00+7.00+15.00+7.00+15.00+2.00=412.00$	12.00	424.00 Perday
2	Semiskilled	$380.00+8.00+15.00+8.00+15.00+2.00=428.00$	12.00	440.00 Perday
3	Skilled	$463.00+9.00+19.00+9.00+19.00+2.00=521.00$	15.00	536.00 Perday
4	Highly Skilled	$566.00+11.00+23.00+11.00+23.00+2.00=636.00$	18.00	654.00 Perday
5	Clerical /Supervisory	$10478.00+210.00+419.00+210.00+419.00+44.00=11780.00$	332.00	12112.00 Permonth
Piece Work				
(a)	Plucker per plucking of one Kg- of green Leaves	$17.00+0.34+0.68+0.34+0.68+0.07=19.11$	1.00	20.11
(b)	Person engaged in hocking for preparing 40 nails in a land measuring 0-133 acre-	$53.00+1.00+2.00+1.00+2.00+0.22=59.22$	2.00	61.22

(c)	Person engaged in weeding and forking per 100 tea bush-	$53.00+1.00+2.00+1.00+2.00+0.22=59.22$	2.00	61.22
10. Lac Manufactory—				
	General Work-			
1	Unskilled	$366.00+7.00+15.00+7.00+15.00+2.00=412.00$	12.00	424.00 Perday
2	Semiskilled	$380.00+8.00+15.00+8.00+15.00+2.00=428.00$	12.00	440.00 Perday
3	Skilled	$463.00+9.00+19.00+9.00+19.00+2.00=521.00$	15.00	536.00 Perday
4	Highly Skilled	$566.00+11.00+23.00+11.00+23.00+2.00=636.00$	18.00	654.00 Perday
5	Clerical /Supervisory	$10478.00+210.00+419.00+210.00+419.00+44.00=11780.00$	332.00	12112.00 Permonth
Piece Work				
(a)	<u>Karigar</u> - for melting 40Kg- of seed lac--	$221.00+4.00+9.00+4.00+9.00+1.00=248.00$	7.00	255.00
(b)	<u>Belwaia</u> - for melting 40Kg- of seed lac-	$190.00+4.00+8.00+4.00+8.00+1.00+0.48=215.48$	6.00	221.48
(c)	<u>Pherwaia</u> - for melting 40Kg- of seed lac-	$115.00+2.00+5.00+2.00+5.00+0.48=129.48$	4.00	133.48
(d)	\pm <u>Kamin & Ghoghiahin</u> - for washing & seperating 40Kg- of seed lac from bhushi, Mullama sand -	$57.00+1.00+2.00+1.00+2.00+0.23=63.23$	2.00	65.23
(e)	Karahia and RangKharhiya ghasander and Mazandar - for washing of 40 Kg of seed lac through washing Machine—	$53.00+1.00+2.00+1.00+2.00+0.22=59.22$	2.00	61.22
(f)	Tailor (Khalifa)			
(i)	when using own machine-(per Bhatta)-	$31.00+0.62+1.24+1.00+1.24+0.13=35.23$	1.00	36.23
(ii)	when using employer chine- (per Bhatta)-	$17.00+0.34+0.68+0.34+0.68+0.07=19.11$	1.00	20.11
(g)	<u>Crusher</u> - per 40Kg- of Stick lac-	$38.00+0.76+1.52+1.00+1.52+0.15=42.95$	1.00	43.95
(h)	<u>Breaker</u> - per 40 Kg-of stick lac-	$33.00+0.66+1.32+1.00+1.32+0.13=37.43$	1.00	38.43

11.	Power loom Industry-			
	General Work-			
1	Unskilled	366.00+7.00+15.00+7.00+15.00+ 2.00 =412.00	12.00	424.00 Perday
2	Semiskilled	380.00+8.00+15.00+8.00+15.00 +2.00=428.00	12.00	440.00 Perday
3	Skilled	463.00+9.00+19.00+9.00+19.00 +2.00=521.00	15.00	536.00 Perday
4	Highly Skilled	566.00+11.00+23.00+11.00+ 23.00+2.00=636.00	18.00	654.00 Perday
5	Clerical /Supervisory	10478.00+210.00+419.00+210.00 +419.00+44.00= 11780.00	332.00	12112.00 Permonth
Piece Work				
	pick	21.00+0.42+0.84+0.42+0.84 +0.08= 23.60	0.7	24.30
	26	21.00+0.42+0.84+0.42+0.84 +0.08= 23.60	0.7	24.30
	28	21.00+0.42+0.84+0.42+0.84 +0.08= 23.60	0.7	24.30
	30	21.00+0.42+0.84+0.42+0.84 +0.08= 23.60	0.7	24.30
	32	21.00+0.42+0.84+0.42+0.84 +0.08= 23.60	0.7	24.30
	34	21.00+0.42+0.84+0.42+0.84 +0.08= 23.60	0.7	24.30
	36	21.00+0.42+0.84+0.42+0.84 +0.08= 23.60	0.7	24.30
	40	21.00+0.42+0.84+0.42+0.84 +0.08= 23.60	0.7	24.30
	42	30.00+0.60+1. 20+1.00+1.20 +0.12 =34.12	1.00	35.12
	44	30.00+0.60+1.20+1.00+1.20+ 0.12 =34.12	1.00	35.12
	46	30.00+0.60+1. 20+1.00+1.20 +0.12 =34.12	1.00	35.12
	48	30.00+0.60+1. 20+1.00+1.20 +0.12 =34.12	1.00	35.12
	50	38.00+0.76+1.52+1.00+1.52 +0.15 =42.95	1.00	43.95
	52	38.00+0.76+1.52+1.00+1.52 +0.15 =42.95	1.00	43.95
12.	Plucking and Processing-Kendu leaves			
	General Work-			
1	Unskilled	366.00+7.00+15.00+7.00+15.00 +2.00 =412.00	12.00	424.00 Perday
2	Semiskilled	380.00+8.00+15.00+8.00+15.00 +2.00=428.00	12.00	440.00 Perday

3	Skilled	463.00+9.00+19.00+9.00+19.00 +2.00=521.00	15.00	536.00 Perday
4	Highly Skilled	566.00+11.00+23.00+11.00+23.00+ 2.00=636.00	18.00	654.00 Perday
5	Clerical /Supervisory	10478.00+210.00+419.00+210.00 +419.00+44.00= 11780.00	332.00	12112.00 Permonth
Piece Work				
(a)	Plucking of leaves per 50,000 leaves or 60 paise per 50 leaves-	1344.00+27.00+54.00+27.00 +54.00+6.00=1512.00	43.00	1555.00
(b)	Packing of Bags Per small bags-	21.00+0.42+0.84+0.42+0.84 +0.08= 23.60	0.7	24.30
	Per big bags-	41.00+0.82+1.64+1.00+1.64 +0.17=46.27	1.00	47.27
(C)	Grading and bundling per bind of 5 Kg-	41.00+0.82+1.64+1.00+1.64 +0.17=46.27	1.00	47.27

These rates of Variable Dearness Allowance will be based on the average of All India Consumer Price Index on which the minimum rates of wages has been fixed/revised in the above scheduled employment. There will be increase or decrease in wage of rates shown in column -4 with rise or fall as the case may be in aforesaid index of the above scheduled employment and will be deemed as Variable Dearness Allowance components. But even if the Index fall below the point on which minimum rates of wages have been fixed / revised there will not be any reduction in the minimum wages fixed/revised. The payment of variable Dearness Allowance on the basis of average index of **July - December, 2024** will be payable at the aforesaid rates from **1st April, 2025** and thereafter increase or decrease in the amount of variable Dearness Allowance will be based on the average of All India Consumer Price Index number for every six months and will be applicable after the expiry of three months after said period of six months.

Note:- (a) The conversion of monthly minimum wages into daily rates shall be obtained by dividing it by 26 and the conversion of daily wage rates into monthly wage rates shall be obtained by multiplying it by 26.

(b) The above proposed rates of minimum wages include remuneration to workers for the day of rest in a period of seven days.

(c) For overtime work on the weekly rest day or on any other day, a workers shall be entitled to be paid twice the wages for overtime work at the rate prescribed in rule 25 of the Bihar Minimum wages Rules, 1951.

(d) Male and female workers shall be receive the same rate of wages for the same work or similar type of work.

(No-5/ M.W.- 40-18/2021 (Part) L&R- 1665)

By the order of the Governor of Bihar,

Rajeev Ranjan,
Joint Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित ।
बिहार गजट (असाधारण) 266-571+100-डी0टी0पी0 ।
Website: <https://egazette.bihar.gov.in/>